



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 916 राँची, शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 नवम्बर, 2019

संख्या--5/आरोप-1-108/2017-26663 (HRMS)-- श्री सुशील कुमार राय, झां०प्र०से० “द्वितीय बैच, गृह जिला-मऊ (उ० प्रदेश)”, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, पलामू के विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत चैनपुर प्रखण्ड में न्यूनतम लक्ष्य प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति पंचायत सृजन के विरुद्ध मात्र 29 मानव दिवस के सृजन होने, डोभा निर्माण लक्ष्य 1275 के विरुद्ध मात्र 511 पर ही क्रियान्वयन प्रारंभ होने, कुल 10455 जॉब कार्ड के विरुद्ध मात्र 4497 जॉब कार्ड का सत्यापन होने, प्रखण्ड में एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने, पूर्व की योजनाएँ लंबित रहने, मनरेगा योजना में Delay Payment 19% रहने एवं मात्र 6% परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग करवाने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10020, दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री राय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री राय के पत्रांक-320, दिनांक 15.03.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री राय के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3959, दिनांक 06.06.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-97, दिनांक 09.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जो अस्पष्ट रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक-2428, दिनांक 19.03.2019 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग,

झारखण्ड से श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में असहमति के बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1467, दिनांक 30.05.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री राय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में डोभा निर्माण के संबंध में सभी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कराकर पूर्ण कराने का उल्लेख किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा दिनांक 26.11.2018 तक डोभा निर्माण कार्य में निर्धारित लक्ष्य का सिर्फ 50% ही निर्माण कार्य पूर्ण करवाने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः, समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राय के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SUSHEEL KUMAR RAI 20080400069 | श्री सुशील कुमार राय, झा0प्र0से0 “द्वितीय बैच”, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर, पलामू को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
